



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आषाढ़ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1144) पटना, मंगलवार, 24 जून 2025

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

30 मई 2025

सं० 18/विविध-05/2022-1130(18)/स्वा०—भारत सरकार के सहायक जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 12(2) एवं सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 35(2) में प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत उक्त अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा 12(3) एवं धारा 35(3) में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार राज्य में समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) का गठन निम्न रूपेण किया जाता है :-

समुचित प्राधिकार :-

क्र० सं०	समिति के पदाधिकारियों का पदनाम	पद
1.	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार अथवा इनसे अन्यून स्तर के अधिकारी (i) विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष (पदेन)
2.	संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार अथवा इनसे अन्यून स्तर के अधिकारी (i) निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	राज्य सरकार के विधि विभाग से मनोनीत उप सचिव अथवा इनसे अन्यून स्तर के अधिकारी (i) श्री कृष्ण कुमार लाल, उप सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4.	प्राविधानित महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्राख्यात महिला (i) श्रीमती मंजू सिन्हा, गुलमोहर मैत्री संस्था।	सदस्य
5.	एक विशेषज्ञ पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी। (i) श्री अशुतोष सिंह, श्री साईं होस्पिटल, कंकड़बाग, पटना, बिहार।	सदस्य

**कार्य :-**

- (1) सरोगेसी क्लिनिकों का पंजीकरण प्रदान करना, निलंबित करना या रद्द करना।
- (2) सरोगेसी क्लिनिकों को नियम के तहत मानक के अनुरूप लागू करवाना।
- (3) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाये गये नियमों एवं विनियमनों के उलंघन की शिकायतों की जाँच करना तथा प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करना।
- (4) किसी व्यक्ति के द्वारा, स्वप्रेरणा से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त संज्ञान के आलोक में सरोगेसी के उपयोग के खिलाफ स्वतंत्र जाँच का उचित कानूनी कार्रवाई किया जाना।
- (5) बोर्ड/राज्य स्तरीय बोर्ड के द्वारा प्रौद्योगिकी या सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नियमों एवं विनियमनों में आवश्यक संशोधन करने हेतु अनुशंसा करना।
- (6) सरोगेसी क्लिनिक के विरुद्ध पाये जाने वाले शिकायतों पर जाँचोपरान्त कानूनी कार्रवाई किया जाना।

उक्त प्रारूप एवं प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय एवं विभागीय माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०)-अस्पष्ट,  
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1144-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>